



भिन्नों का जोड़ (मिश्रित अंश)

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$\frac{5}{9} + \frac{6}{8} =$$

$$\frac{3}{7} + \frac{4}{5} =$$

$$2\frac{1}{3} + 1\frac{1}{6} =$$

$$\frac{3}{5} + \frac{1}{4} =$$

$$\frac{5}{8} + 2\frac{1}{3} =$$

$$\frac{4}{5} + \frac{3}{9} =$$

$$\frac{3}{7} + \frac{4}{5} =$$

$$\frac{6}{9} + \frac{1}{6} =$$

$$\frac{4}{8} + \frac{2}{4} =$$

$$\frac{4}{5} + 1\frac{1}{6} =$$



भिन्नों का जोड़ (मिश्रित अंश)

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$\frac{5}{9} + \frac{6}{8} = \frac{47}{36} = 1\frac{11}{36}$$

$$\frac{3}{7} + \frac{4}{5} = \frac{43}{35} = 1\frac{8}{35}$$

$$2\frac{1}{3} + 1\frac{1}{6} = \frac{7}{2} = 3\frac{1}{2}$$

$$\frac{3}{5} + \frac{1}{4} = \frac{17}{20}$$

$$\frac{5}{8} + 2\frac{1}{3} = \frac{71}{24} = 2\frac{23}{24}$$

$$\frac{4}{5} + \frac{3}{9} = \frac{17}{15} = 1\frac{2}{15}$$

$$\frac{3}{7} + \frac{4}{5} = \frac{43}{35} = 1\frac{8}{35}$$

$$\frac{6}{9} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$

$$\frac{4}{8} + \frac{2}{4} = 1$$

$$\frac{4}{5} + 1\frac{1}{6} = \frac{59}{30} = 1\frac{29}{30}$$